



ENVIROTECH SYSTEMS LIMITED

(Formerly Envirotech Systems Pvt. Ltd.)

Corporate Office: B-1A/19, Commercial Complex, Sector-51, Noida-201307(U.P.)
Works: Plot No.: 345-346-347, Ecotech-1 (Extension), Greater Noida-201308 (U.P.)
Telephone's: 0120- 4337633, 4337439 **E-mail :** sales@envirotechltd.com
CIN : L31101DL2007PLC159075 **Website :** www.envirotechltd.com



To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol: ENVIPO
ISIN: INE0SUH01015

Date: 05th September 2025

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI Listing Regulations, we enclose herewith copies of newspaper advertisement published in the Financial Express (English) and Jansata (Hindi), in compliance with MCA & SEBI circulars intimating that 18th Annual General Meeting of the Envirotech Systems Limited will be held on Monday, 29th September 2025 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The above information is also available on the website of the Company at www.envirotechlimited.com.

You are requested to take this information on your record.

Thanking You,
For Envirotech Systems Limited

Pallvi Sharma
Company Secretary
Membership No: A51237
Date: 05/09/2025
Place: Noida



एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड
 (CIN: L31100DL2007PLC159075)
 पंजीकृत कार्यालय: A-29, ब्लॉक A, श्याम विहार फेज-1, नई दिल्ली, दिल्ली, 110043 कॉर्पोरेट कार्यालय: B-1A/19, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 51, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश), संपर्क संख्या: +91-120-4337633, 4337439, ईमेल: cs@envirotechltd.com, वेबसाइट: www.envirotechltd.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी। आईएसटी कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एससीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-बीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 तथा इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में क्रमशः संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिन्हें ईमेल पते कंपनी/डिजिटलईड प्रतिभागियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://www.envirotechltd.com/investors> पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी NSDL की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगे।

हीमेट मोड में शेयर रखने वाले जिन शेयरधारकों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना ईमेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं, और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे investor.del@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर या फॉर्म ISR-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म और दस्तावेजों के साथ अपना ईमेल पता और अन्य केवाईडी विवरण, यदि लागू हों, पंजीकृत/अपडेट करें। फॉर्म ISR-1 का प्रारूप विमलेश्वर की वेबसाइट <https://www.bigshareonline.com> पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान, वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवस्थाएं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।

हीमेटरियलाइट्स मोड, डिजिटल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रक्रिया शेयरधारकों की जारी किए गए नोटिस में दी जाएगी। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को नहीं भेजेगी।

एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
(मनीज कुमार गुप्ता)
निदेशक
दिनांक: 04/09/2025
स्थान: दिल्ली
(डॉआईएन: 01187138)



एसआरएम एनर्जी लिमिटेड
 (CIN: L17100DL1985PLC03047)
 पंजीकृत कार्यालय: कमरा नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, 1ए नॉल रोड, राशि मंड्य, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
 फोन: +91 (11) 4576 8283 ईमेल: info@srmenrgy.in, वेबसाइट: www.srmenrgy.in

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि एसआरएम एनर्जी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन ऑडियो-विजुअल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी कार्यालय, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एचओ/सीएफडी/सीएफडी-बीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 तथा इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एससीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में क्रमशः संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिन्हें ईमेल पते कंपनी/डिजिटलईड प्रतिभागियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी NSDL की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगे।

यदि कोई व्यक्ति अपने शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं करता है, तो वह अपने ईमेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं, और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे investor.del@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर या फॉर्म ISR-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म और दस्तावेजों के साथ अपना ईमेल पता और अन्य केवाईडी विवरण, यदि लागू हों, पंजीकृत/अपडेट करें। फॉर्म ISR-1 का प्रारूप विमलेश्वर की वेबसाइट <https://www.bigshareonline.com> पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान, वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवस्थाएं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।

हीमेटरियलाइट्स मोड, डिजिटल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रक्रिया शेयरधारकों की जारी किए गए नोटिस में दी जाएगी। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को नहीं भेजेगी।

एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
(मनीज कुमार गुप्ता)
निदेशक
दिनांक: 04/09/2025
स्थान: दिल्ली
(डॉआईएन: 01187138)

This is only an advertisement for information purpose only and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated July 14, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") (the "Stock Exchange") and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").



ZODIAC VENTURES LIMITED
 (CIN: L45209MH1981PLC023923)
 Registered Office: 205-C, 45 Juhu Residency, Off Gulmohar Road, Juhu, Vile Parle (West), Mumbai-400049, Maharashtra
 Tel: +91 9920598992 | Email: info@zodiacventures.in | Website: www.zodiacventures.in
Contact Person: Mr. Rustom Deboo, Company Secretary & Compliance Officer

Our Company was originally incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Mumbai, dated February 19, 1981 with the name Growel Investments Limited. The Company on November 8, 2006 changed its Name from Growel Investments Limited to Money Masters Investment Limited, as issued by Registrar of Companies, Mumbai. Further, The Company on June 29, 2010 changed its name from Money Masters Investment Limited to Zodiac Ventures Limited, as issued by Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number of our Company is L45209MH1981PLC023923. The Company got listed on Main Board of BSE Limited on September 15, 1991, bearing Scrip Code 503641 and Scrip Name ZODIACVEN. The ISIN of the Company is INE945J01027. For details see "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: YESHA RAMESH SHAH, SUNITA JIMIT SHAH, JIMIT RAMESH SHAH, PUSHPA R. SHAH, RAMESH VIRJI SHAH

ISSUE OF UP TO 4,51,08,000* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 6.30/- PER RIGHT EQUITY SHARE INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 6.30/- PER RIGHT EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 2,841.80 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 5 (FIVE)FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS ("THE ISSUE") AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, JULY 18, 2025. THE ISSUE PRICE IS 6.3 (SIX POINT THREE) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 192OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Zodiac Ventures Limited wishes to thanks all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Thursday, July 31, 2025 and closed on Monday, August 25, 2025 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Friday, August 08, 2025. Out of the total 1276 Applications for 4,98,30,872 Equity Shares, 625 Applications for 32,71,485 Equity Shares were rejected based on technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of fully valid applications received were 1,267 Applications for 4,65,59,387 Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer and on the basis of allotment finalized on September 03, 2025, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on September 03, 2025 allotted 4,51,08,000 Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment

1. The break-up of valid Applications (including ASBA applications) is given below:

Category	No. of Valid Applications (Including ASBA)	Applications Received No. of Rights Equity Shares Accepted and allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Accepted and Allotted against Additional Applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A +B)
Eligible Equity Shareholders	1132	36,14,343	2,42,97,379	2,79,11,722
Renounees	144	6,63,008	1,65,33,270	1,71,96,278
Total	1276	42,77,351	4,08,30,649	4,51,08,000

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	No. of Valid Applications (Including ASBA)	Equity Shares Applied for				Equity Shares allotted			
		Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renounees	1747	92.34%	30383207	191414204.10	60.97%	27911722	175843848.60	61.88%	
Renounees	145	7.66%	19447665	122520289.50	39.03%	17196278	108336551.40	38.12%	
Total	1892	100.00%	49830872	313934493.60	100.00%	45108000	284180400.00	100.00%	

Intimations for Allotment/Refund/Rejection Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and reason for rejection, as per the instructions, to the investors has been completed September 05, 2025. The instructions to SCBSs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on September 03, 2025. The Listing application was filed with BSE on September 03, 2025 and subsequently, the listing approval was received on September 04, 2025. The credit of Equity Shares in dematerialise form to respective demat accounts of allottees has been completed on September 05, 2025. For further details please see "Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page number 214 and 215 of the Letter of Offer Pursuant to the listing and trading approval granted to be granted by the Stock Exchange, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on the Stock Exchange on or before September 08, 2025. In Accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement provided in NSDL and CDSL is completed on September 05, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITYSHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:



The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI (ICDR) Regulations as the size of issue is up to 2,841.80 Lakhs. The present Issue being of less than Rs. 5000.00 Lakhs, the Issuer shall prepare the Letter of Offer in accordance with requirement as specified in the regulation and file the same with the SEBI for information and dissemination on the SEBI's website. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on page 186 and 187 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE ("Designated Stock Exchange") should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 186 and 187 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTUS OF THE COMPANY.

Investors may contact the Registrar or Managing Director or the Company Secretary of the Company for any pre issue or post issue related matters. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCBSs in case of ASBA process, giving full details of the Application number, address of the Applicant, contact number(s), e- mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCBSs where the Application Form or the plain paper applications as-the-case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

REGISTRAR TO THE ISSUE	THE COMPANY
 <p>MUFInt Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited) Address: C-101/1, 24/7 Link Intime, L-01 Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Maharashtra Contact Person: Shanti Gopalakrishnan Tel No: +91 81081 14949 Email: zodiacventures.rights@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: zodiacventures.rights@linkintime.co.in Website: www.in.mnps.mufgm.com SEBI Registration No: INR000004058</p>	 <p>ZODIAC VENTURES LIMITED CIN: L45209MH1981PLC023923 Registered Office: 205-C, 45 Juhu Residency, Off Gulmohar Road, Juhu, Vile Parle (West), Mumbai-400049, Maharashtra Contact Person: Mr. Rustom Deboo , Company Secretary & Compliance Officer Contact No: +91-9920598992 Email-Id: info@zodiacventures.in Website: www.zodiacventures.in</p>
<p>Date: September 04, 2025 Place: Mumbai</p> <p>Disclaimer: Our Company is proposing, subject receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated July 14, 2025 with the Stock Exchange and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, Our Company at www.zodiacventures.in and the Registrar to the Issue at www.in.mnps.mufgm.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning a page 24 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.</p>	<p>For, ZODIAC VENTURES LIMITED On behalf of the Board of Directors</p> <p>Sd/- Mr. Jimit Ramesh Shah Managing Director (DIN: 01587096)</p>



पंजाब नैशनल बैंक
भारत का प्रत्येक
 (A BRANCH OF INDIA UNDERTAKING)



punjab national bank
 ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली, 4वां तल, 7, मेकाजी काना प्लेस नई दिल्ली-110066
ईमेल: cs4168@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नौलामी हेतु विक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नौलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नहीं वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारंटर्(री), आश्रित मूल्य और वसूलेत राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार.


प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों की विक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: खाते का नाम: उधारकर्ता/ गारंटर/ खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) आरंभिक मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नौलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को बात एकत्रणन का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.	
1.	शाखा: ईसीई हाउस, नई दिल्ली मेसर्स रुचि टेक्स घर संख्या-483/आर, वार्ड संख्या-483 29 सज्जन सिंह पार्क, मॉडल टाउन पानीपत-132103 यूनिट संख्या-बी112ए, 7वीं मंजिल, टावर बी, एवंबट नेविस, प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-142, एक्सप्रेसवे नोएडा, जीबी नगर यूपी, श्रीमती रुथि माई के नाम पर / क्षेत्रफल 758 वर्ग फीट और कवर्ड एरिया 450.80 वर्ग फीट श्रीमती रुथि माई पत्नी श्री पंकज माई मकान नंबर - 483-आर वार्ड नंबर 483/29 सज्जन सिंह पार्क मॉडल टाउन पानीपत -132103 बी - 712 ए, एडवांट नेविस के टावर बी में 7वीं मंजिल प्लॉट नंबर -7 सेक्टर -142 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, नोएडा - 201305 मेसर्स रुचि टेक्स ए - 30 सेक्टर - 65, नोएडा, यूपी - 201301 मेसर्स रुचि टेक्स प्लॉट नंबर सी - 85, सेक्टर 65 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी	एडवांट नेविस, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-142, एक्सप्रेसवे नोएडा, जीबी तगर यूपी के यूनिट नंबर-बी112ए, 7वीं मंजिल, टावर बी में औद्योगिक भूमेि और थिडिडंग शेड के लीजहोल्ड अधिकारों का समतुल्य बंधक, श्रीमती रुथि माई के नाम पर क्षेत्रफल : 758 वर्ग फीट और कवर्ड एरिया 450.80 वर्ग फीट	E) 06.04.2018 F) रु. 42.13 लाख वस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 27.06.2018 H) नोडिक	A) Rs. 44.50 लाख B) Rs. 4.45 लाख C) Rs. 1,00,00,000	25.09.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एडवांट आई.टी. पार्ट प्राइटेड लिमिटेड का बकाया बकाया है।	श्रीमती रिखमन नेन 9802927574
2.	शाखा: वसंत विहार, नई दिल्ली मेसर्स राइट इंटीरियर डिजाइन, कार्वाइल 500, रोजपुड अपार्टमेंट, पॉकेट-ए, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली 110078 श्रीमती किरण शर्मा (साहित्य) 500, रोजपुड अपार्टमेंट, पॉकेट-ए, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली 110078 श्रीमती शालिनी रानी शर्मा (हनु) अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से सीटी-223ए, यूजीक, गुड्डाहा रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, द्वारका, नई दिल्ली 110069 गौरव शर्मा (गारंटर) पुत्र नरेंद्र कुमार शर्मा -500, रोजपुड अपार्टमेंट, पॉकेट-ए, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली-110078 गौरव शर्मा (गारंटर) पुत्र नरेंद्र कुमार शर्मा सी-223, यूजीक, गुड्डाहा रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, द्वारका, नई दिल्ली-110069 श्रीमती किरण शर्मा (साहित्य) सी-223ए, यूजीक, गुड्डाहा रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, द्वारका, नई दिल्ली 110069 श्रीमती सौमिया सिंह (स्वामीनी शालिनी रानी शर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी) प्लॉट संख्या 318, को हाइट देवीजोरी, पॉकेट 4, सेक्टर 18बी द्वारका, नई दिल्ली - 110075	दिल्ली राज्य के नवादा गांव में स्थित खसरा संख्या 571 और 573 में से संपत्ति संख्या जी-223ए, क्षेत्रफल 98.5 वर्ग गज के हिस्से के ऊपरी मूलत (वसुदेवों के अधिकार के विना) का समतुल्य बंधक, मोहन गांव के नाम से जानी जाती वाली कालोनी, डी-ब्लॉक, गुड्डाहा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059, श्रीमती शालिनी रानी शर्मा पत्नी नरेंद्र कुमार शर्मा के नाम पर है।	E) 15.03.2023 F) रु. 21.84 लाख + ब्याज एवं चर्च G) 27.03.2023 H) नोडिक	A) रु. 35.00 लाख B) रु. 3.50 लाख C) रु. 20.000	25.09.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति की विक्री पर कोई रोक/रद्दरा लेकिन नयी है	श्रीमती रिखमन नेन 9802927574

ई-नौलामी विक्री के सक्षिप्त विवरण एवं शर्तें : विक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) नौलामी विक्री ई-नौलामी पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नौलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://baanknet.com>) ई-नौलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलएनएस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टावर, बडोला ट्रंक टर्मिनल के पास, बडोला ईस्ट मुंबई-400037 (केल्पडेक नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी: support.ebkny@psblliance.com) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को ई-नौलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नौलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नौलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन / प्रसिद्धि को प्रदान करेगा। (3) विक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त विक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पॉर्टल (1)<https://baanknet.com> (2) www.pnbndia.in पर उपलब्ध / प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा भेजे को विक्री प्रतिक्रिया का भुगतान आवश्यक अधिनियम 1981 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को जी जी 75% जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उपस्थित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बतया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस विषय में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरकारी अधिनियम की धारा 13(6) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 02 तक सभी मामलों में जारी किया गया है (8) विक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> & www.pnbndia.in देखें।

दिनांक : 02.09.2025, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक



ग्रोवी इंडिया लिमिटेड
 रवि, कार्यालय: 122, प्रथम तल, विनोबा पुरी, लांगपाट नगर - II, नई दिल्ली - 110 024, भारत | सीआईएन: L74130DL1985PLC0215332
 फ़ोन: +91 11 4674 0000 | फैक्स: +91 11 4674 0030
 ई-मेल: info@grovyindia.com | वेबसाइट: www.grovyindia.com

सार्वजनिक सूचना

एनूद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रोवी इंडिया लिमिटेड की 40^व वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की जा रही है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के सभी लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के संवाहन हेतु, सीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।
- एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्हें ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। इसलिए जिन सदस्यों ने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके ईमेल पते पंजीकृत करावा लें। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.grovyindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और आईएफ सी वेबसाइट compliance@skylineira.com पर भी उपलब्ध हैं।
- कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने में समर्थ है। अंतिम तिथि (अर्थात् 23.09.2025) तक शेयर धारक सदस्य जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी/आईएफ सी के पास ईमेल आईडी उपलब्ध न होने के कारण कंपनी की वार्षिक बैठक की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है, वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस पत्रे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, www.cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत है, तो वह सीडीएसएल के लिंक अपने मोबाइल फ़ोन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। रिपोर्ट ई-वोटिंग की अवधि इस प्रकार है:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	रिमोट ई-वोटिंग का समापन
शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे)	रविवार, 28 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे)

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें सदस्यों द्वारा भौतिक/डीमोट मोड में शेयर रखने और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, की प्रक्रिया भी शामिल है, सूचना में प्रदान की गई है।

- जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाटा दिया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि अंतिम सामान्य वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे पात्र सदस्यों के बैंक खाते में सीधे विभिन्न ऑनलाइन हस्ताक्षर विधियों के माध्यम से भ

PUBLIC NOTICE

ICICI Bank Regd. Office: ICICI Bank Limited, Landmark, Race Course Circle, Vadodra- 390007

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051
Branch Office: ICICI Bank Ltd. TC 13, V-IV Vibhuti Khand Gombi Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010

A notice is hereby given that the following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non Performing Assets (NPA). The notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses as provided to the bank by them, that in addition thereto for the purposes of information of the said borrowers enumerated below, the said borrowers are being informed by way of this public notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address:	Description of Secured Asset to be enforced	Date of Notice sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1.	LQMRT00049530389/ Bright Services/ Vill Ghat Panchli Khurd Baghat Road/ Meerut- 250002/ Meerut- 250002	ZT 21A/ HDD MACHINE/ ORG20324552	31-07-2025 Rs. 70,01,241.00/-	10/13/ 2024

The above borrower/s and/or their guarantors (where ever applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of issuance of notice U/s. 13 (2), failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of issuance of notice U/s. 13 (2) as per the provisions of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: September 05, 2025
Place: Bareilly

Sincerely, Authorised Officer
For ICICI Bank Ltd.

AUTHUM AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED

Regi. Off. : 707, Raheja Centre, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai-400 021.Ph.: (022) 6747 2117 Fax: (022) 6747 2118 E-Mail: Info@Authum.com

Branch Address: Office No-1216-1220, 12th Floor, Naurang House, Plot No-21, Kasturba Gandhi Road, Connaught Place, New Delhi-110001

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/mortgagors mentioned hereunder had availed the financial assistance from Authum Investment & Infrastructure Limited ("AIL") (Resulting Company pursuant to the demerger of lending business from Reliance Commercial Finance Limited ("RCFL") to AIL vide NCLT order dated 10.05.2024) We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/ guarantors/ mortgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates.

The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, in the books of AIL in accordance with the directives relating to asset classification issued by the National Housing Bank, consequent to the Authorized Officer of AIL under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers/guarantors/mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices. The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice.

Loan No. / Name Of The Borrower / Address	Co-Borrower And Guarantor Name Director Name	NPA DATE	Date Of Demand Notice	Outstanding Amount	Loan Amount
RLCSD000338571 Dev Polyplast Pvt Ltd 830-D Industrial Area, Kirti Nagar New Delhi	JAYANTI LALJI	31-08-2019	27-06-2025	Rs.6328084/- (Rupees Sixty Three Lakh Twenty Eight Thousand Eighty Four Only)	Rs. 4221000/- (Rupees Forty Two Lakh Twenty One Thousand Only)
Description Of The Secured Interest /Mortgage property:- Machinery Details :- Model Id-38586, Model No-TWIN SCREW EXTRUDER MACHINE SME 75B, Asset Desc-TWIN SCREW EXTRUDER MACHINE SME 75B, Make-TWIN SCREW EXTRUDER MACHINE SME 75B, Manufacture Desc-SARA INTERNATIONAL INC, Supplier Desc-SARA INTERNATIONAL INC	DHARMENDRA KUMAR JAIN	11-06-2021	27-06-2025	Rs. 5094809.46/- (Rupees Fifty Lakh Ninety Four Thousand Eight Hundred Nine Only)	Rs.2950000/- (Rupees Twenty Nine Lakh Fifty Thousand Only)
RLSDEL000381857 Jainson Packaging Products 3703 Gali Maman Jamadar Pahari Dhiraj Delhi - 110006					

Description Of The Secured Interest /Mortgage property:- Machinery Details :- Model Id-45809, Model No-SM 102 SL, Asset Desc-SM 102 SL, Make:USED HEIDELBERG SIX COLOR PRINTING, Manufacture Desc-HEIDELBERG, Supplier Desc-DEEP TRADING CO Noida

Loan No. / Name Of The Borrower / Address	Co-Borrower And Guarantor Name Director Name	NPA DATE	Date Of Demand Notice	Outstanding Amount	Loan Amount
RLSDEL000383328/ SRI SAI PLAST-134 SEC 4 DSIID BAWANA DELHI	BALWANT SINGH	30-01-2021	27-06-2025	Rs. 2013824/- (Rupees Twenty Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Twenty Four Only)	Rs. 2181818/- (Rupees Twenty One Lakh Eighty One Thousand Eight Hundred Eighteen Only)

Description Of The Secured Interest /Mortgage property:- Machinery Details :- Model Id-45963, Model No-NG 130 SERVO, Asset Desc-NG 130 SERVO, Make:INJECTION MOLDING MACHINE NG 130 S, Manufacture Desc-NEELGIRI MACHINERY, Supplier Desc-NEELGIRI MACHINERY

Loan No. / Name Of The Borrower / Address	Co-Borrower And Guarantor Name Director Name	NPA DATE	Date Of Demand Notice	Outstanding Amount	Loan Amount
RLSDEL000348539/ Jagratlan Daan Singh And CompanyC-71, Mayapuri Indl Area Phase II Delhi Delhi -110064	JATINDER SINGH	01-01-2021	30-06-2025	Rs. 246090409.25/- (Rupees Two Crore Forty Six Lakh Ninety Thousand Nine Hundred Nine Only)	Rs. 12306019/- (Rupees One Crore Twenty Three Lakh Six Thousand Nineteen Only)

Description Of The Secured Interest /Mortgage property:- Machinery Details No.1 - Model Id-43275, Model No-SHOT BLASTING AND PAINTING MACHINE, Asset Desc-SHOT BLASTING AND PAINTING MACHINE, Make-SHOT BLASTING & PAINTING MACHINE, Manufacture Desc-BLASTCLEAN SYSTEMS PVT LTD, Supplier Desc-BLASTCLEAN SYSTEMS PVT LTD Towards loan a/c no-RLSRDEL000348539 And Machinery Details: No.2- Model Id-43273, Model No-DX 350 700 A, Asset Desc-DX 350 700 A, Make:-JYOTI MAKE CNC TURING CENTER, Manufacture Desc-JYOTI CNC AUTOMATION LTD, Supplier Desc-JYOTI CNC AUTOMATION LTD Towards loan a/c no-RLSRDEL000348540

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/ or their guarantors (where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules there under.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Dated : 05.09.2025
Place: Delhi

Authorized Officer,
Authum Investment & Infrastructure Limited

Form No.3 [See Regulation-13(1)(a)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor, SCO 33-34-45 Sector-17A, Chandigarh
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/1625/2018

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No: 27694

PUNJAB NATIONAL BANK VS

MILI COMMUNICATIONS AND ANOTHERS

To,
(1) MILI COMMUNICATIONS AND ANOTHERS
M/S MILI COMMUNICATIONS SHOP NO. 2 KHANDSA ROAD OPPOSITE SHIV MANDIR NEAR ANAJ MANDI GURGAON HARYANA THROUGH SHRI SHEKHAR SHARMA
(2) SHRI SHEKHAR SHARMA SON OF SHRI BAL KRISHAN SHARMA
R/O HOUSE NO. 123/128, JYOTI PARK, GURGAON HARYANA

WHEREAS, OA/1625/2018 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar on 25/08/2025.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 1476567/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

- to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
- to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
- you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
- you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
- you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 30/09/2025 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 29/08/2025.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

ENVIROTECH SYSTEMS LIMITED

(CIN: L31101DL2007PLC159075)

Registered Office: A-29, Block A, Shyam Vihar Phase-I, New Delhi, Delhi, 110043
Corporate Office: B-1A/19, Commercial Complex, Sector 51, Noida-201307 (U.P.)
Contact No.: +91-120-4337633, 4337439, Email: cs@envirotechltd.com, Website: www.envirotechltd.com

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on Monday, September 29, 2025 at 02:00 P.M. IST in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "SEBI Circulars") respectively.

In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent to all the Members of the Company electronically whose email address(es) are registered with the Company / Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at <https://www.envirotechltd.com/investors>, on the website of the Stock Exchange i.e. on the NSDL's website at www.evoting.nsdl.com.

Shareholders holding shares in demat mode whose e-mail addresses are not registered may get their e-mail address registered with their respective Depository Participant(s), and Shareholders holdings shares in physical mode are requested to register/ update their email address and other KYC details, if applicable, by sending request at investor.del@bigshareonline.com or along with Form ISR-1 and other relevant forms and documents. The format of Form ISR-1 is available on the website of BigShare at <https://www.bigshareonline.com>.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely prior to AGM or during the AGM on the business as set forth in the notice of the AGM, through electronic voting system. The manner of voting remotely prior to AGM or during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the notice to the shareholders.

Shareholders may please note that in terms of aforementioned circulars, the Company will not send physical copies of AGM notice and Annual Report to the shareholders.

For Envirotech Systems Limited
Sd/-
Director
(Manoj Kumar Gupta)
(DIN: 01187138)

Date: 04/09/2025
Place: Delhi

Chola CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED
Corporate office: Chola Crest, Super B, C54 & C55, 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032

Possession Notice [Appendix IV] Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and dealings with the property will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

NAME AND ADDRESS OF BORROWER/S & LOAN/AC No.	DT OF DEMAND NOTICE	O/S. AMT.	DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	DATE OF POSSESSION
Loan A/c Nos. HL29SAH000105274 1. Mr/Mrs. Neel Sharma 2. Mr/Mrs. Nitu NITU At : SHEKHARSARAHANPUR, NEAR TEMPLE, Saharanpur, UTTAR PRADESH - 247232 Also At: HOME NO. 1306/1262, INDRA COLONY, NEAR VARDHMAN COLONY, MAJJA SANSAWA, NAKUR, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH - 247232	13-06-2025	Rs.2195711/- (Rupees Twenty One Lakhs Ninety Five Thousand Seven Hundred Eleven Only) as on 11-06-2025	All that piece and parcel of residential house total area of 84.34 Sq. Mtr., Municipal No.1306/1262, Situated at abadi Indra Colony, Near Vardhaman colony, Mauza - Sarsawa, Tehsil - Nakur, Dist. - Saharanpur, Uttar Pradesh - 247242, And Bounded On:- East - House of Chandra pal, West - House of Sukhdev Sharma, North - House of Babil, South - Road 16ft wide.	30-08-2025

Place : SAHARANPUR
Date : 30-08-2025

SD/- AUTHORISED OFFICER,
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Public Notice For E-Auction For Sale of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at : 3030E, Upper Ground Floor, Shivaji Marg, New Delhi - 110015 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IFL-HFL, had taken the possession of the following properties pursuant to the notice issued U/s 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iflhome.com

Borrower(s) / Co-Borrower (s)/ Guarantor/ Legal Heir	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Symbolic Possession	Reserve Price
1. Mr. Shashi Shekhar Tiwari 2. Mrs. Renu (Prospect No) 914615, 968643	11-Feb-2025 Rs. 18,65,887/- (Rupees Eighteen Lakh Sixty Five Thousand Eight Hundred and Eighty Seven Only) Bid Increase Amount Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	All that part and parcel of the property bearing Entire Third Floor With Roof/Terrace Rights Out Of Built Up Property Bearing Plot No 159-A Out Of Khassa No. 400, Block V, Sector-D, Situated In The Revenue Estate Of Village Bindra Our Delhi State Delhi Colony Known As Bhagwati Vihar In Block-V, Sector-D, Uttam Nagar, New Delhi, 110059 Area Admeasuring (In Sq. Ft.): Property Type: Saleable Area, Carpet Area Property Area: 450.00, 405.00	09-May-2025 On Date 06-Aug-2025 Rs. 20,27,261/- (Rupees Twenty Seven Lakh Two Hundred and Eighty One Only)	Rs. 20,28,000/- (Rupees Twenty Lakh Twenty Eight Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,02,800/- (Rupees Two Lakh Twenty Eight Hundred Only)

Date of Inspection of property 03-Oct-2025 1100 hrs -1400 hrs
EMD Last Date 06-Oct-2025 till 5 p.m.
Date/ Time of E-Auction 08-Oct-2025 1100 hrs-1300 hrs.

Mode of Payment:-EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit <https://www.iflhome.com> and pay through link available for the property/ Secured Asset only.
Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public auction. For Balance Payment - Login <https://www.iflhome.com> > My Bid > Pay Balance Amount.
Important information: This auction is published basis possession vide Sec 13 (4) of SARFAESI Act. Physical possession will be offered post receiving of Section-14 order as per process laid down under SARFAESI Act and when physical possession will be taken. Bidder shall do necessary due-diligence in respect of documents and legality before participating in auction proceedings.

- Terms and Conditions:-**
- For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider <https://www.iflhome.com> well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch office.
 - The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will be automatically get extended for 5 minutes.
 - The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.
 - The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, and and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.
 - The purchaser has to pay TDS application to the transaction/payment of sale amount and submit the TDS certificate with IFL HFL.
 - Bidders are advised to go through the website <https://www.iflhome.com> and <https://www.ifl.com/home-loans/properties-for-auction> for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.
 - For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- care@iflhome.com, Support Helpline Numbers @1800 2672 499.
 - For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iflhome.com
 - Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
 - Further the notice is hereby given to the Borrowers, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
 - In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
 - AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and conditions of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/auction, the decision of AO of IFL-HFL will be final.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place:-Delhi, Date: 05-09-2025 Sd/- Authorised Officer, IFL Home Finance Limited

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LTD.
Regd. Office: Unit No. 421, 4th Floor, Pearl Omaze Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034
CIN: L74900DL1992PLC047055 Website: www.rcind.com
Email: corp.rci.industries.technologies@gmail.com

Statement of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 (Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1	Income					
a)	Revenue from operations	123.82	566.59	924.41	2,301.89	5,986.13
b)	Other Income	0.58	0.06	17.07	10.79	22.67
	Total Income	124.38	566.66	941.48	2,312.68	5,998.80
2	Expenses					
a)	Cost of Material Consumed	145.42	628.40	806.47	1,780.06	4,565.75
b)	Purchase of stock in trade	-	-	-	-	-
c)	Change in inventories of Finished goods, WIP and Stock in trade	19.88	89.23	557.41	331.15	2,580.07
d)	Employee benefit expense	46.67	98.20	85.80	341.01	438.06
e)	Finance cost	5.00	28.13	18.43	163.75	20.76
f)	Depreciation and amortisation expense	96.09	96.27	287.37	577.42	1,127.57
g)	Other Expenditure	64.13	111.52	2542.00	562.90	4,448.01
	Total expenses	376.99	1,051.75	4,277.28	3,738.28	13,180.22
3	Profit/(Loss) from operations before tax, exceptional items, Prior Period	(252.61)	(485.09)	(3,335.80)	(1,423.60)	(7,189.42)
4	Exceptional items	-	-	-	-	-
5	Prior Period Items	-	-	-	-	-
6	Profit/(Loss) before tax	(252.61)	(485.09)	(3,335.80)	(1,423.60)	(7,189.42)
7	Tax expense					
(1)	Current Tax	-	-	-	-	-
(2)	Deferred Tax	379.79	(73.93)	(14.34)	295.74	(23.10)
8	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(632.40)	(411.16)	(3,321.45)	(1,719.34)	(7,166.32)
9	Other Comprehensive Income	-	-	12.73	8.95	28.79
10	Total Comprehensive Income / (Loss)	(632.40)	(411.16)	(3,308.72)	(1,709.39)	(7,137.53)
11	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64
12	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)					
a)	Basic	(4.03)	(2.62)	(21.19)	(10.97)	(45.71)
b)	Diluted	(4.03)	(2.62)	(21.19)	(10.97)	(45.71)
	Key information on Standalone Financial Results is as follows:-					
	Total Revenue from Operations	124.38	566.66	941.08	2,312.68	5,990.80
	Net Profit Before Tax	(252.61)	(457.44)	(3,381.52)	(1,423.60)	(7,232.89)
	Net profit After Tax	(632.40)	(383.51)	(3,367.18)	(1,719.34)	(7,209.79)

Notes:-

- The above financial results for the quarter and year ended March 31, 2023, have been reviewed by the Resolution Professional on September 3rd, 2025.
- The activity during the year revolves around manufacturing and trading of all kind of metals and metal products. Considering the nature of Group's business and operations, as well as based on review of operating results by the chief operating decision maker to make decision about resource allocation and performance measurement, there is only one reportable segment in accordance with the requirement of Ind AS 108 "Operating Segments". During the year ended March 31, 2020, All the lenders to the Company has declared the account as non performing asset (NPA) due to non-payment of interest due and borrowed amount. There is no provision for interest expense has been made in books of accounts.
- The net worth of the Company has been fully covered. Although this indicates the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. However, the Application was filed by the Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (Operational Creditor) under section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) for commencement of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) in the matter of RCI Industries & Technologies Limited ("Corporate Debtor" or "Company"). Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) New Delhi vide its order dated November 25, 2022 in C.P. (IB) No. 2688 of 2019, commenced the CIRP in the matter of Corporate Debtor and appointed Mr. Brijesh Singh Bhadouria as Interim Resolution Professional (IRP) subsequently confirming him as the Resolution Professional ("RP") under the provisions of the Code. The said order was uploaded on the website and available to the RP on November 30, 2022. Accordingly, the Company is currently under the CIRP process as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The financial results have been prepared on a going concern basis, considering the ongoing resolution process and the expectation of revival through CIRP.
- The financial result has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued there under and the other accounting principles generally accepted in India.
- The Resolution Professional (RP) would like to mention that the Directors, Statutory Auditors, and Compliance Officer of the Company were not cooperative in providing the desired information and documents promptly to the RP. Consequently, the RP was constrained to file an Intervention Application under Section 19(2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) (IA No. 1386/2023 dated 03.03.2023), seeking necessary directions to the Directors,